



Association of Engineering and Polytechnic College Teachers (Gazetted Officers) of Chhattisgarh

Under the aegis of Chhattisgarh Gazetted Officer's Association & AIFPTO

Reg. No.122201923255, Yr-2019,

Mobile No. 9755873317

President
Mr. S B Warathe

General Secretary
Dr Sailendra Singh

Treasurer
Mr Gajendra Dewangan

क्रमांक/AICTE वेतनमान/2019/11-25

दुर्ग, दिनांक 25-11-2019

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- शासकीय पोलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने बाबत।

संदर्भ:- मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक नंबर 1-37/2016-TS-II दिनांक 23 जनवरी 2019, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

2. भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) रजिस्ट्री संख्या डीजल 33004/99, नई दिल्ली दिनांक 01-03-2019।

3. वित्त विभाग की यूनिक कंप्यूटर फाइल F- 2019-42-00480

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा नई दिल्ली द्वारा एआईसीटीई से संबंधित शासकीय पोलिटेक्निक एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान देने को संदर्भित पत्रों द्वारा अनुशंसा की गई है।

राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग एवं पोलिटेक्निक कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एआईसीटीई वेतनमान स्वीकृति हेतु प्रकरण संदर्भित कंप्यूटर फाइल द्वारा दो बार वित्त विभाग को पेश किया गया है परंतु वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा वेतनमान स्वीकृत न कर बार बार फाइलों पर आब्जेक्शन कि केंद्र से 50% व्यय अनुदान की विभाग अन्य राज्य से पुष्टि करे कि कोरा आश्वासन तो नहीं है, हास्यास्पद आपत्ति लगा कर तकनीकी शिक्षा विभाग को लौटाया जा रहा है।

समानांतर प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए वित्त विभाग ने ऐसी आपत्ति नहीं लगाई है, महाविद्यालयीन शिक्षकों को एक वर्ष पूर्व ही 7वाँ वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है।

राज्य शासन के समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुका है। सिर्फ शासकीय इंजीनियरिंग एवं पोलिटेक्निक कालेजों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित रखा है। तकनीकी संस्थाओं (शासकीय इंजीनियरिंग एवं पोलिटेक्निक) के शिक्षकों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, इससे शिक्षकों में रोष व्याप्त हो रहा है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसका संज्ञान लेकर तत्काल प्रकरण का निराकरण करने हेतु सादर निवेदन एवं अनुरोध है।

धन्यवाद।

एस बी वराठे
अध्यक्ष

प्रतिलिपि. प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ इंद्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक पहल हेतु निवेदन है।